



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 2019/आषाढ़ 17, 1941

No. 234]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2019/ASHADHA 17, 1941

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

(संसद के अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

अधिसूचना

कोलकाता, 8 जुलाई, 2019

सं. ईएल-2019/27.—दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की चार क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन यथा संशोधित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियमावली, 2006, यथा संशोधित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार हुए थे:

1. अधिसूचना सं. ईएल - 2019/1 दिनांक 26 मार्च, 2019
2. अधिसूचना सं. ईएल - 2019/2 दिनांक 26 मार्च, 2019
3. अधिसूचना सं. ईएल - 2019/3 दिनांक 26 मार्च, 2019
4. अधिसूचना सं. ईएल - 2019/4 दिनांक 26 मार्च, 2019
5. अधिसूचना सं. ईएल - 2019/5 दिनांक 26 मार्च, 2019
6. अधिसूचना सं. ईएल - 2019/6 दिनांक 26 मार्च, 2019
7. अधिसूचना सं. ईएल - 2019/7 दिनांक 26 मार्च, 2019
8. अधिसूचना सं. ईएल - 2019/8 दिनांक 26 मार्च, 2019
9. अधिसूचना सं. ईएल - 2019/9 दिनांक 26 मार्च, 2019

विनियम 114, 115, 118, 121 और यथा संशोधित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के अन्य लागू विनियमों के साथ पठित यथा संशोधित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स नियमावली (परिषद के लिए निर्वाचन), 2006 के नियम 36 और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद के आदेश अनुपालन में एतद्वारा सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि 2019–2023 के कार्यकाल के लिए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया जाता है:

क. पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद :

1. भावसार, आशीष कुमार सुरेशचन्द्रा (एम/22646)
2. भाम्बे, महेन्द्र तुलसीराम (एम/29773)
3. बिरला, दिनेश कुमार (एम/7907)
4. देशपाण्डे, हर्षद एस (एम/25054)
5. गौस्वामी, अरिन्दम (एम/30993)
6. कुलकर्णी, विनायक बालकृष्णा (एम/28559)
7. महाकालीवर, श्रीराम नारायण (एम/22055)
8. मोहरिर, चैतन्यलक्ष्मणराव (एम/27229)

ख. दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद :

1. अगस्त्य विजय किरण (एम/25827)
2. भट्ट, विश्वनाथ रामकृष्णा (एम/22986)
3. दरपनेनी मुनिशेखर (एम/33464)
4. अय्यर, राजेश साई (एम/28373)
5. पनिककर, सन्कर पी (एम/25794)
6. राजागोपाल, के (एम/17491)
7. राव, के पाण्डुरंगा (एम/17466)
8. सतीश, ज्योति (एम/31292)
9. श्रीनिवासा, राव, यदलपल्ली (एम/20543)
10. सूर्यनारायणन, के (एम/24946)

ग. पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद :

1. बनर्जी आशीष (एम/19645)
2. बसु, अरुंधति (एम/25144)
3. भट्टाचार्य, पल्लव (एम/20372)
4. नायक, विभूतिभूषण (एम/17713)
5. नायक, उत्तम कुमार (एम/23918)
6. सिंह, अभिषेक कुमार (एम/33400)
7. सिंह, निशांत कुमार (एम/31126)

घ. उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद :

1. भाटी, राजेन्द्र सिंह (एम/33509)
2. गोयल, संदीप (एम/17120)
3. कांडपाल, मनीष (एम/33796)
4. पालीवाल, शैलेन्द्र कुमार (एम/25067)
5. पंत, संतोष (एम/32283)
6. शर्मा, अनिल (एम/15091)
7. तारा, हरकेश (एम/17321)

एल. गुरुमूर्ति, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./120/19]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

(Statutory Body under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

Kolkata, the 8th July, 2019

No. EL-2019/27.—The elections to the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India was held in accordance with the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 as amended, The Cost and Works Accountants Regulations, 1959 as amended and as per the following Notifications :

1. Notification No. EL – 2019/1 dated 26th March 2019
2. Notification No. EL – 2019/2 dated 26th March 2019
3. Notification No. EL – 2019/3 dated 26th March 2019
4. Notification No. EL – 2019/4 dated 26th March 2019
5. Notification No. EL – 2019/5 dated 26th March 2019
6. Notification No. EL – 2019/6 dated 26th March 2019
7. Notification No. EL – 2019/7 dated 26th March 2019
8. Notification No. EL – 2019/8 dated 26th March 2019
9. Notification No. EL – 2019/9 dated 26th March 2019

In pursuance of Rule 36 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 as amended read with Regulations 114, 115, 118, 121 and other applicable Regulations of The Cost and Works Accountants Regulations, 1959 as amended and order of the Council of the Institute of Cost Accountants of India, it is hereby notified for information that the following members have been declared elected to the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India for the term 2019 – 2023 :-

A. WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL:

1. Bhavsar, Ashishkumar Sureshchandra (M/ 22646)
2. Bhombe, Mahendra Tulshiram (M/ 29773)
3. Birla, Dinesh Kumar (M/ 7907)
4. Deshpande, Harshad S (M/ 25054)
5. Goswami, Arindam (M/ 30993)
6. Kulkarni, Vinayak Balkrishna (M/ 28559)
7. Mahankaliwar, Shriram Narayan (M/ 22055)
8. Mohrir, Chaitanya Laxmanrao (M/ 27229)

B. SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL:

1. Agastya, Vijay Kiran (M/ 25827)
2. Bhat, Vishwanath Ramakrishna (M/ 22986)
3. Darapaneni, Munisekhar (M/ 33464)
4. Iyer, Rajesh Sai (M/ 28373)
5. Panicker, Sankar P (M/ 25794)
6. Rajagopal, K (M/ 17491)
7. Rao, K Pandu Ranga (M/ 17466)
8. Satish, Jyothi (M/ 31292)
9. Srinivasa Rao, Yadlapalli (M/ 20543)
10. Suryanarayanan, K (M/ 24946)

C. EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL:

1. Banerjee, Ashis (M/ 19645)
2. Basu, Arundhati (M/ 25144)
3. Bhattacharya, Pallab (M/ 20372)
4. Nayak, Bibhuti Bhushan (M/ 17713)
5. Nayak, Uttam Kumar (M/ 23918)
6. Singh, Abhishek Kumar (M/ 33400)
7. Singh, Nishant Kumar (M/ 31126)

D. NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL:

1. Bhati, Rajendra Singh (M/ 33509)
2. Goel, Sandeep (M/ 17120)
3. Kandpal, Manish (M/ 33796)
4. Paliwal, Shailendra Kumar (M/ 25067)
5. Pant, Santosh (M/ 32283)
6. Sharma, Anil (M/ 15091)
7. Tara, Harkesh (M/ 17321)

L. GURUMURTHY, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./120/19]